

कक्षा – सातवीं

विषय – हिंदी

कविता -1 इतिहास बनाया करते हैं

1. शब्दार्थ

1.निम्नलिखित मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

प्रश्न-क कवि ने समय को नदी की बाढ़ जैसा क्यों कहा है?

उत्तर- कवि ने समय को नदी की बाढ़ जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जैसे बाढ़ आती है और अपनी तेज गति से सब कुछ बहाकर ले जाती है उसी प्रकार समय आता है और पलक झपकते ही तेजी से निकल जाता है।

प्रश्न-ख कवि ने समय को बड़ा तूफान क्यों कहा है?

उत्तर- कवि ने समय को बड़ा तूफान इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार तूफान आने पर बड़े से बड़े पर्वत भी झुक जाया करते हैं उसी प्रकार कठिन समय आने पर शक्तिशाली मनुष्य भी समय के आगे नतमस्तक हो जाते हैं।

प्रश्न-ग शिवाजी किसके पहरेदारों से बचकर जेल से बाहर आए थे?

उत्तर- शिवाजी मुगलों के पहरेदारों से बचकर जेल से बाहर आए थे।

2. निम्नलिखित लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

प्रश्न-क 'जय हिंद' की निशानी किसके रक्त कर्णों से लिखी गई?

उत्तर- जय हिंद की निशानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस के रक्त कर्णों से लिखी गई है।

प्रश्न-ख ज्योतिषियों ने सुभाष के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी?

उत्तर- ज्योतिषियों ने सुभाष के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वे वीर चक्रवर्ती सम्राट, त्यागी या सन्यासी बनेंगे, जिनके गौरव को भारतवासी युगों-युगों तक याद रखेंगे।

प्रश्न-ग सुभाषचंद्र बोस को पारा क्यों कहा गया?

उत्तर- सुभाषचंद्र बोस को पारा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार पारा मुट्ठी बंद करने पर हाथ से निकल जाता है उसी प्रकार सुभाषचंद्र बोस अंग्रेजों के हाथों से निकल गए।

प्रश्न-घ यहां क्रुद्ध शेर किसे कहा गया है और क्यों?

उत्तर- यहां क्रुद्ध शेर सुभाष को कहा गया है क्योंकि क्रोध से भरे शेर को बंदी बनाना सरल नहीं है।

प्रश्न-ड धूर्त दुर्योधन की चाल से कौन बच कर आए थे?

उत्तर-धूर्त दुर्योधन की चाल से यदुनंदन बच कर आए थे।

2. निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए-

वीर – शक्तिशाली, ताकतवर

काया- शरीर, तन

कथा- कहानी, गाथा, दास्तान

जेल- कारागार बंदीगृह

धूर्त- मूर्ख, जड़

पुरुष- मनुष्य, इंसान

3. दिए गए शब्दों में से चुनकर विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाइए –

धूर्त, प्यारा, पर्वत, प्रबल, कहानी, सुभाष, अमर सेनानी, दुर्योधन

उत्तर- विशेषण- धूर्त, प्यारा, प्रबल, अमर।

विशेष्य - पर्वत, कहानी, सुभाष, सेनानी, दुर्योधन

4. निम्नलिखित वाक्यांशों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए

क. समय के सामने पर्वत भी झुक जाते हैं।

ख. प्यारा सुभाष हमारा नेता सुभाष।

ग. क्रुद्ध कहरी फंदे में नहीं टिकता।

घ. शिवाजी ने मुगलों के होश उड़ा दिए।